

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 15.09.22

थाना पुंवायाँ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान राजा मार्किट स्थित कपडो की दुकान मे चोरी करने वाले शातिर चोर को मय चोरी किये हुये कपडो के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री एस.आनन्द के कुशल निर्देशन , पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री संजीव कुमार वाजपेयी व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ श्री पंकज पंत के कुशल प्रयवेक्षण मे चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम मे थाना पुंवायाँ पुलिस टीम को चैकिंग के दौरान शातिर चोर अभियुक्त गोपाल को मय चोरी किये हुये कपडो के साथ के साथ किया गया गिरफ्तार ।

दिनाँक 13.09.2022 की रात मे राजा मार्किट पुवायां मे उत्तम गुप्ता की कपडो की दुकान से कुछ कपडे (पेन्ट- शर्ट) चोरी करने के सम्बन्ध मे दुकानदार उत्तम गुप्ता पुत्र द्वारा अभियोग मु0अ0सं0 793/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया था । घटना को गम्भीरता से लेते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ को निर्देशित किया गया । जिस पर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा घटना का सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठित की गयी।

आज दिनांक 14.09.2022 को थाना पुंवायाँ पुलिस को चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौराने मुखविर की सूचना पर राजा मार्किट पुवायां मे कपडो की दुकान से कपडे चोरी करने वाले शातिर चोर को स्वामी विवेकानंद इंटर कालेज के गेट से लगभग 200 कदम दूरी पर समय करीब शाम 07.05 बजे रामलीला ग्राउन्ड के पास अभियुक्त गोपाल पुत्र रामसरन निवासी मो0 छावनी कस्बा व थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर मो0 छावनी थाना पुवायां शाह0 से दुकान से चोरी किये गये कपडो (23 जीन्स की पेन्ट व 11 रेडीमेड शर्ट) बरामद कर थाना लाकर कार्यालय की निरगानी मे बैठाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. गोपाल पुत्र रामसरन निवासी मो0 छावनी कस्बा व थाना थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1. मु0अ0सं0 793/2022 धारा 380/411 भादवि

बरामदगी :-

23 जीन्स की पेन्ट व 11 रेडीमेड शर्ट

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गोपाल उपरोक्त से इस चोरी के सम्बन्ध मे गहनता से पूछताछ की गयो तो अभियुक्त गोपाल ने बताया कि साहब मुझे शराब पीने की लत लगी हुई है शराब पीने के लिये मैं चोरी करता हूं और कल मेरे पास शराब पीने के लिये पैसे नही थे जिस कारण पैसे का जुगाड करने के लिये मैंने यह चोरी की है तथा मैं पहली बार पकडा गया हूँ सबसे पहले मैं उत्तम गुप्ता की दुकान के आसपास घूमता रहा है तथा दुकान बंद करने के समय दुकान के बाहर ही लेट गया तथा कुछ देर बाद मौका पाकर मैंने दुकान के लकडी के गेटो की सनद मे से हाथ डालकर जितने कपडे मैं खीच पाया जल्दी से जल्दी खीच लिये कि कही गस्त करते हुए पुलिस मुझे पकड न ले । और चोरी किये गये कपडे मैंने अपने घर ले जाकर छुपा दिये । अगर आप लोग मुझे नही पकडते तो ये कपडे कल सुबह बाहर कही जाकर बेच देता । अभियुक्त से पूर्व मे की गयी चोरियों के सम्बन्ध मे भी गहनता से पूछताछ की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह
2. का0 2327 रोहित कुमार
3. का0 2697 सुन्दरपाल